

Photo



कानपुर विकास प्राधिकरण

E-mail : kvs@kvsindia.co.in • Website : www.kvsindia.co.in



कब्जा प्रमाण-पत्र अभियन्त्रण विभाग - जोन (

संख्या :- D/246/994/14 0. 8/30.21/1. 10/12/30.20

विक्रय अधिकारी के पत्र संख्या D/246/994/14 0. 8/30.21/1. 10/12/30.20 को 14/12/20 के आधार पर 30.4 के अर्धी 3 की 23 के को ब्लॉक में स्थिति मूलचढ/मदन सं० 30.4 को नौके पर फ्री होल्ड/रजिस्ट्री दिनांक 12/12/20 की चौहददी के अनुसार दिनांक 12/12/20 को आवंटी श्री/श्रीमती 30.4 के अर्धी 3 की 23 को नौके पर कब्जा दिया गया।

चौहददी निम्नवत
पूर्व फ्लैट संख्या - आई-301 पश्चिम 6.00 मी. 0.155 मी
उत्तर ललाक सं० 224 दक्षिण फ्लैट संख्या आई-303

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
अपर अभियन्ता
(नाम व पद नाम सहित)
प्रतिहस्ताक्षरित
सहायक अभियन्ता
नाम व पद नाम सहित

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव (जोन-) / विश्व बैंक के सुवनाथ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अधिसाकी अभियन्ता
जोन :- /

7781



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh
e-Stamp

Certificate No. : IN-UP14509863239035S
Certificate Issued Date : 02-Dec-2020 12:43 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ KANPUR/ UP-KNP
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0122676299360638S
Purchased by : DR BRIJESH SINGH
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : FLAT NO.1-304,3RD FLOOR,3BHK,KDA SIGNATURE CITY,VIKAS NAGAR,KANPUR NAGAR
Consideration Price (Rs.) :
First Party : KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party : DR BRIJESH SINGH
Stamp Duty Paid By : DR BRIJESH SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,37,000
(Four Lakh Thirty Seven Thousand only)



E STAMP LOCKED
R-II, KANPUR NAGAR

Please write or type below this line.....



अभिषेक प्रसादी
अधीनस्थ अधिकारी



RS 0003471505

हम, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर एवम् डा० बुजेश सिंह पुत्र स्व० श्री राम प्रसाद एवं श्रीमती कल्पना पत्नी डा० बुजेश सिंह भिवासी-ग्राम-रपुरा दीक्षित जैतपुर कर्ला आगरा आज दिनांक 11.12.2020 को आगे उल्लिखित/प्रिन्टेड शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक फ्री-होल्ड डीड को निष्पादित करते हैं एवम् ₹० 4,37,000/- की स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान "इन स्टैम्प पत्रों के माध्यम से" कर चुके हैं, जो विलेख के साथ संलग्न है।

विलेख तैयार कर्ता, *Brij Singh*

एस०डी०सी०

कार्यालय : श्रीमान उपनिबंधक जौन- कानपुर नगर

1. प्रस्तुत दिनांक : 11.12.2020
 2. निष्पादन दिनांक : पी-होल्ड डीड
 3. लेखपत्र का प्रकार व अवधि : रूपया
 4. बाजारी/सरकारी मूल्य : कानपुर विकास प्राधिकरण
 5. विक्रेता का नाम : डा० बृजेश सिंह पुत्र स्व० श्री राम प्रसाद एवं श्रीमती कल
पत्नी डा० बृजेश सिंह निवासी-ग्राम-रेपुस दीक्षित जैतपुर
 6. खेता का नाम : कर्ली आगरा।
- पैन कार्ड संख्या : BDIPS1764D/ATTPK0074A
7. आधार कार्ड संख्या : 8325 3225 8442 / 8379 0498 2327

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

1. स्थान : सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर
2. भवन/प्लैट संख्या : प्लैट संख्या आई-304(03 की0एच0के0)
सोजना के0डी0ए0 सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर
नगर स्थित पृथीय तल
3. प्लैट का निर्मित क्षेत्रफल : 128.80 वर्गमी०
4. प्लैट का अनुयायिक अयनिजित भाग भूमि क्षेत्रफल : 42.88 वर्गमी०
5. सीमा से सड़क की चौड़ाई : 6.00 मीटर चौड़ी सड़क
6. भू-प्रयोग : आवासीय
7. भवन के तलों की संख्या : रिटल्ड + बारह तल
8. निर्माण की अवधि : नवनिर्मित

सम्पूर्ण भवन की षट्पदिक सीमायें

- पूरब : 6.00 मी० वाइड रोड
पश्चिम : 6.00 मी० वाइड रोड
उत्तर : ब्लाक सं०-एच
दक्षिण : ब्लाक सं०-जे

विक्रीत प्लैट की षट्पदिक सीमायें

- पूरब : प्लैट संख्या आई-301
पश्चिम : 6.00 मी० वाइड रोड
उत्तर : ब्लाक सं०-एच
दक्षिण : प्लैट संख्या आई-303

Brij Singh

ok

अन्य विवरण

विक्रीत सम्पत्ति वास्तव में आवासीय है तथा विक्रीत नजूल की भूमि पर विधात न है। विक्रीत सम्पत्ति/सम्पूर्ण भवन के शान्ति पार्क नहीं है। भवन की दो सीमाओं में सड़क नहीं जो कि विक्रीत सम्पत्ति के अंगुरूप है।

भूमि दर	₹ 32,500.00 प्रचक्रमी
1. भूमि का मूल्य	₹ 13,93,000.00
2. निर्माण का मूल्य	₹ 46,77,400.00
3. पीपलसौ	₹ 00.00
4. ब्याज का मूल्य	₹ 00.00
5. फी-डोल्ड	₹ 1,67,232.00
कुल योग	₹ 62,38,232.00
5 प्रतिशत छूट का मूल्य (-)	₹ 2,62,350.00
जमा अवशेष धनराशि	₹ 59,75,882.00

(आपटी को कब्जा दिये जाने का प्रस्ताव इस विलेख के निष्पादन से पूर्व नहीं किया गया वास्तविक कब्जा इस विलेख के निष्पादन के बाद हस्तांतरित किया जायेगा। अतः स्टैम्प शुल्क : अदायगी चक्रम शासन, कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 के शासनादेश संक्रमा नो-7-440/11 2015-700 (111)/13 लखनऊ दिनांक 30 मार्च 2015 के अन्तर्गत किया जा रहा है)

नोट :- क्रेता द्वारा प्लैट के कुल कीमत ₹ 62,38,232.00 पर मुबलिंग 4,37,000/-₹ का स्टा के द्वारा अदा किया गया है।

Pratap Sen

Pratap Sen

Pratap Sen

Pratap Sen

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज कानपुर नगर में-

कानपुर विकास प्राधिकरण विद्यत गोठीपौल, कानपुर नगर जरिये प्रचारी अधिक (बल्क सेल) कानपुर विकास प्राधिकरण, जिन्हें इस विक्रय पत्र में शब्द 'विक्रेता' से सम्बोधित किया गया है और जिसके अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

डा० इजोस सिंह पुत्र स्व० श्री राम प्रसाद एवं श्रीमती कल्पना पत्नी डा० इजोस निवासी-ग्राम-रपुरा दीक्षित जैतपुर कलौ आगरा।

जिन्हें इस विक्रय पत्र में शब्द 'क्रेता' से सम्बोधित किया गया है और जिसके अर्थ में ऊ उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे।

-----क्रेता

के मध्य निष्पादित किया गया।

स्थित हो कि विक्रेता, प्लॉट नम्बर आई-304(3बीएच0के0) स्थित सिन्धेवर ग्रीन्स विर नगर कानपुर नगर आच्छादित क्षेत्रफल 128.80 वर्गमी० क्षेत्रफल पर निर्मित है। नय अव्यभिचित भूमि क्षेत्रफल 42.88 वर्गमी० जिसका पूर्ण विवरण व म्युचुअल सेनायें इस विक्रय पत्र के प्रारम्भ ऊपर वर्णित हैं तथा जिसे संलग्न नानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है, नय भवन उपलब्ध शामिल शरीक सुविधायें भी सम्मिलित हैं, का निर्माण विक्रेता द्वारा कराया गया है और मालिक, स्वामी, काबिज व दाखिल हैं और उसे उक्त वर्णित प्लॉट के बावत समस्त प्रकार के मालिकाना हस्तिल है।

यह भी विदित हो कि इस विक्रय पत्र में वर्णित सम्पत्ति अर्थात् प्लॉट नम्बर आई- (3बीएच0के0) स्थित सिन्धेवर ग्रीन्स विकास नगर कानपुर नगर आच्छादित क्षेत्रफल 12 वर्गमी० क्षेत्रफल पर निर्मित है, नय अव्यभिचित नाम भूमि क्षेत्रफल 42.88 वर्गमी० का विक्रेता र मालिक, काबिज व दाखिल है, उक्त विक्रीत प्लॉट में विक्रेता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का हक व हिस्सा स्वतः वास्ता व सरोकार नहीं है और उक्त विक्रीत प्लॉट हर प्रकार से बार व मा मुक्त व फसक व ताफ है यानी कहीं कहीं भी कृषि व गृहण व मुस्तगरक जमानत आ नहीं है। विक्रेता के सम्मिलित की बावत कोई विवाद किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। दि को किसी आदेश के तहत उक्त विक्रीत प्लॉट की रहन, बय आदि करने से रोकना नहीं गय विक्रेता को बहेशियत मालिक अपने उक्त विक्रीत प्लॉट को रहन, बय आदि करने के अधिकार है।

Buyers' stamp

2

अतः विकेता द्वारा केता के पत्र में यह विक्रय पत्र निम्नानुसार विधिवत् किया जा रहा है:-

1. यह कि विकेता ने अपने स्वामित्व वाले प्लॉट नम्बर आई-304(अ/पुए/का/बी/0) विना सिन्धुधर शीला विकास नगर कांगपुर नगर विकास पूर्ण विवरण व चतुर्विध सीमादी इ- विक्रय पत्र की प्रारम्भ में ऊपर वर्णित है तथा जिसे संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है व अन्य स्वामित्व शरीक सुविधाओं जैसे कागज पैसेज, स्टैटर केस, स्वामित्व प्रेडिक्ट मार्ग एवं अन्य सभी कागज सुविधाओं सहित समस्त प्रकार के चाद व भारी से मुक्त केता को बहीनता मुद्रतिग रु 59,75,002/- (पाचौन छपसठ लाख पचासहत्तर हजार आठ व बघासी रूपया मात्र) प्राप्त करके विक्रय कर दिया तथा केता को विक्रीत सम्पत्ति का कर व दखल वाकई अपनी शीति पूर्णतावा उतारी रूप में प्रदान कर दिया, केता आज से विक्री सम्पत्ति का पूर्णरूपेण मालिक व स्वामी हो गया है।
2. यह कि विकेता ने केता से सम्पूर्ण विक्रय मूल्य इस विक्रय पत्र के अन्त में लिखे अंशुल प्राप्त कर लिया है। अब विक्रय प्रतिकूल की सम्बन्ध में विकेता को केता से कुछ भी पाना व नहीं रह गया है।
3. यह कि विकेता ने केता को यह आश्वासन दत्त दिया है कि विक्रीत सम्पत्ति आज दिन र हर प्रकार से पाक व साफ है, जिसमें विकेता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सहस्वामी : हिस्सेदार नहीं है और कहीं किसी प्रकार बंधक, विक्रय, दान व मुक्त गरक इजामनात अ में नहीं है और विक्रीत सम्पत्ति के स्वाभित्द से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई चाद कि भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग में विचारार्थीन नहीं है और न ही विव सम्पत्ति किसी विक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम और न ही विकेता को आज दिन तक वि भी न्यायालय, सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्वहित अ करने से रोका या गना ही किया गया है तथा विकेता को विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्व आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त है।
4. यह कि विकेता ने केता को पूर्ण रूप से आश्वासन दत्त दिया गया है कि विकेता को वि सम्पत्ति के पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये है व इसमें किसी को किसी किस्म रुकवट डालने या अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है व इस विक्रय पत्र में व समस्त अधिकार केता को प्राप्त ही गये है।
5. यह कि केता को यह भी अधिकार है कि व इस विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम व मारिक, काबिज कागजात सरकारी में या जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो दर्ज करवा व अपना पृथक मकान/प्लॉट नम्बर आवंटित करा ले विकेता की रजामदी व सहमति, विलेख के माध्यम से दी जा रही है, परन्तु इनमें होने वाले खर्चों को केता स्वयं वहन क केता विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त प्रकार से हालत टैक्स, सीलेख टैक्स व अन्य प्रकार के राजकीय करों आदि की अदायगी नियमित करता रहेगा।
6. यह कि उक्त आवासीय भवन की कपरी छत, हमेशा विकेता की सम्पत्ति रहेगी और वि को अधिकार होगा कि वे उक्त स्थान को जिस तरह से चाहे, अपने प्रयोग में लाये, उस्ता निर्माण आदि करावे।

de

Sup Leo

Signature



7. यह कि केंद्रों को इस बात के लिए रजामन्द है कि उक्त आवासीय भवन के सम्बन्ध कानपुर नगर निगम, कानपुर जल संस्थान अथवा अन्य किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी स्वयत्तशासी संस्थान के द्वारा लगाये जाने वाले समस्त कर्षों आदि को इस विषय विलेख बाद में अदा करेगा तथा यह उक्त भवन की शामिल शरीक शुल्कों वाले स्थानों रख-रखाव आदि का खर्च भी अनुपातिक रूप में अदा करेगा।
8. यह कि केंद्रों को उक्त प्लेट, 2000 फ्लैट अधिनियम के तहत विक्रय किया गया है तब केंद्रों के उक्त प्लेट के निर्माण व निर्माण सामग्री आदि के सम्बन्ध में पूर्ण संतुष्टि कर है तथा केंद्रों ने उक्त सम्मति के हर प्रकार से दोषमुक्त बचन मुक्त विवाद मुक्त होने से विश्वास व इत्मीनान कर लिया है।
9. यह कि केंद्रों का यह दायित्व होगा कि वह अन्य प्लेट के मास्कों के साथ ए आर 0 डब्ल्यू 0 ए 0 समिति गठित करके समस्त मेट्रीनस के दायित्वों का भार समानुपाति आधार पर वहन करे और किसी तरह का कोई व्यवधान, गतिरोध उत्पन्न नहीं करे तथा केंद्रों प्लेट में कोई ऐसा कार्य व निर्माण व तोड़ फोड़ नहीं करेंगे जिससे नद को किसी तरह की क्षति पैदा हो व अन्य प्लेट स्वामियों को किसी प्रकार की असुवि हो और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा जो समाज की दृष्टि से अनैतिक व कानून व दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आता हो।
10. यह कि केंद्रों को पूर्ण अधिकार है कि व विक्रीत सम्मति में अपना पृथक विद्युत कनेक्शन टेलीफोन कनेक्शन आदि उक्त भवन में लगावा ले।
11. यह कि विक्रेता न उक्त आवासीय भवन के समस्त क्रेताओं की सुविधा के लिए स्टेय स्टैयरकेस, ओवर हेड टैंक, पानी चढ़ाने हेतु पम्प, विद्युत व्यवस्था (कामन एरिया के लिए बोरिंग, सीवर लाइन, मुख्य पाइपलाइन, विद्युत वायरिंग व शामिल शरीक स्थानों तथा लिफ्ट के समुचित प्रयोग किये जाने हेतु समस्त आवश्यक उपकरण उक्त भवन में संस्थापित कि है, जिन्हे शामिल रूप में उपयोग व उपभोग करने का अधिकार क्रेता सहित अन्य सभ क्रेताओं अन्य सभी क्रेताओं को भी होगा, परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भी सम्मिलित उपभोग व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं या स्थान पर अपने स्वामित्व का दावा कभी भी करने व अधिकारी न होगा।
12. यह कि केंद्रों उक्त विक्रीत सम्पत्ति को न तो कभी किसी समय गिरायेगे और न ही गिरा जाने के कारण उत्पन्न करेंगे और न ही उसकी क्षति कारित करेंगे और न ही उस अतिरिक्त निर्माण करायेंगे और न ही उसके यथास्थित निर्माण में कोई रुद्धोद्बल या बदला करेंगे और न ही उसके स्थायी स्वरूप में परिवर्तन करेंगे केंद्रों उक्त भवन में शामिल शरीक इस्तेमाल के स्थानों, रास्तों, दरामदों, बालकनी, जीना कॉरीडोर पर कोई अवरोध उत्पन्न न। कूड़ा करकट आदि फेंकेंगे और न ही कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे उक्त भवन के अ लोगो को किसी तरह की कोई असुविधा हो।
13. यह कि जब तक उक्त आवासीय भवन का अस्तित्व बना रहेगा, तब तक केंद्रों अविभाजि भाग भूमि का दावा नहीं करेंगे तथा इस भवन को मात्र अपने रिहायशी इस्तेमाल व उपभोग में लायेंगे और कभी भी भू-प्रयोग परिवर्तित नहीं करेंगे।

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten mark

(6)

14. यह कि प्रत्येक आन्तरिक दीवार जो विभाजक दीवार होगी, दोनों भागों के मालिकानों में शामिल दीवार होगी।
15. यह कि इस विक्रय पत्र का समस्त खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है यदि स्टाम्प शुल्क आदि में कोई कमी पायी जाये जो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
16. यह कि इस विक्रय पत्र की बाध्यता, विक्रेता तथा क्रेता एवं उनके उत्तराधिकारियों आदि भी होगी।
17. यह कि विक्रीत सम्पत्ति पर यदि कोई सर्विस टैक्स या अन्य कोई देनदारी है, तो देनदारी क्रेता की होगी, विक्रेता से उक्त देनदारी को कोई सरोकार नहीं होगा।
18. यह कि फ्लैट का कब्जा क्रेता, विक्रेता से नियमानुसार ले लेगा, यदि क्रेता कब्जा नहीं लेता है तो प्राधिकरण नियमानुसार चौकीदारी शुल्क वसूलने का अधिकारी होगा।
19. यह कि किसी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
20. यदि आवंटित फ्लैट का कब्जा देने में अर्जन सम्बन्धी अथवा न्यायालय प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणों से किसी प्रकार का विलम्ब होता है अथवा बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी। ऐसी दशा में आवंटित जमाधन बिना कटौती के वापस कर दिया जायेगा।
21. यह कि क्रेता को दिये गये आवंटन पत्र के समस्त शर्तें यथावत प्रभावी रहेगी एवं क्रेता परिचायिका विवरण पुस्तिका में दिये गये विवरण अनुसार पार्किंग एवं कार्पस फण्ड भुगतान अलग से करना होगा।
22. यह कि परिसर का नाम सदैव "के०डी०ए० सिग्नेचर ग्रीन्स" ही रहेगा तथा इसे परिवर्तित करने का अधिकार क्रेता या किसी को भी नहीं होगा।

अनुसूची "ए"

विक्रय पत्र में वर्णित शामिल शारीक स्थान व सुविधाओं का विवरण:-

1. फाउण्डेशन, कालम, गरडर्स, बीम्स, सपोर्ट, मुख्य दीवारें, रास्ते, लॉबीज, जीना, मार्ग, वॉटर का सेटबैक, आवागमन मार्ग आदि।
2. स्टेयर, स्टेयरकेस, ओवर हेड टैंक, पानी चढ़ाने हेतु पम्प विद्युत व्यवस्था (कामन एरिया लिए) बोरिंग, सीवर लाइन, मुख्य पाइप लाइन, उत्पाक विद्युत वायरिंग व शामिल : स्थानों के समुचित प्रयोग किये जाने हेतु समस्त आवश्यक उपकरण।

11/11

M. S. Sen

11/11/11



11/11

(7)

फ्लैट सं० आई-304(3बी0एच0के0) स्थित सिग्नेचर ग्रीन्स विकास नगर, कानपुर नगर।

उपरोक्त के अलावा कंटेना को संयुक्त प्रवेश मुख्य दरवाजा, शामिल शरीक जीना, जीने का रास्ता व कामन रास्ता आदि शामिल शरीक सुविधाओं के प्रयोग का अधिकारी है।

3. कॉमन लिफ्ट, दो प्रत्येक टॉवर।

4. एक कवर्ड कार पार्किंग

इस विलेख के साक्ष्य में कंटेना ने और विकंटेना की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

M. J. Singh

कंटेना के हस्ताक्षर

प्राधिकरण की ओर से तथा उसके द्वारा प्राधिकृत

J. P. Singh

हस्ताक्षर गवाहान


फोटोग्राफ गवाहान

1- हस्ताक्षर.....
नाम..... शक्ति श्रीवास्तव
पिता/पति का नाम..... रमेश चंद्र श्रीवास्तव
पता..... 98 बी, राजपुत नगर, न्यू पी. ए. सी.
कानपुर - 208015
मोबाइल नम्बर..... 9703782810



2- हस्ताक्षर.....
नाम..... विजय कुमार
पिता/पति का नाम..... जगरशन प्रसाद
पता..... 167 ई, पुरवा नानकारी सह. सह. टी,
कानपुर - 208016
मोबाइल नम्बर..... 9451139599





6.00 MT. WD. ROAD
 THIRD FLOOR PLAN
 BLOCK - I

Handwritten signatures and notes:
 Drip Singh
 Drip Singh
 Drip Singh


**SITE PLAN OF KDA SIGNATURE GREENS AT
 VIKAS NAGAR, KANPUR NAGAR.
 (BLOCK - I)**

AREA STATEMENT :

**UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE IN
 LAND AREA - 42.88 SQ. MT.**

**SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. 1-301 - 128.80 SQ. MT.
 SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. 1-302 - 128.80 SQ. MT.
 SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. 1-303 - 128.80 SQ. MT.
 SUPER BUILT UP AREA OF FLAT NO. 1-304 - 128.80 SQ. MT.**

LAND USE - RESIDENTIAL



D/M <i>Drip Singh</i> 20.8.20	J.E. <i>Handwritten Signature</i>	A.E. <i>Handwritten Signature</i>
E.E. <i>Handwritten Signature</i>	T.P. <i>Handwritten Signature</i>	

आवेदन सं०: 202000849058822

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 7781

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझाने मजमुन व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री आशु मितल अधिशाषी अभियंता कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा अभियेक त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व अजीत त्रिपाठी

निवासी: कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर
व्यवसाय: लौकरी

क्रेता: 1



श्री डा० वृजेश सिंह, पुत्र श्री स्व राम प्रसाद

निवासी: भियासी-बाम-रेपुरा दीक्षित जैतपुर कर्ली आगरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 2



श्रीमती कल्पना, पत्नी श्री डा० वृजेश सिंह

निवासी: भियासी-बाम-रेपुरा दीक्षित जैतपुर कर्ली आगरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 2



ने निष्पादन वीकार किया। जिनकी पहचान पट्टाकवर्ती: 1

श्री शीतल श्रीवास्तव, पुत्र श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव

निवासी: 28 वी राजपूत नगर न्यू पी ए सी लाइन

आ.नं 45137822747

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2




श्री विजय कुमार, पुत्र श्री लालमोहन प्रसाद

निवासी: निम्बरा-167 पुरवा लानकारी आई. आई टी कानपुर

आ.नं. 949876868999

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 2



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार, एस०बी०चन्द्रा उपनिबंधक जौन-२ कानपुर लिए गए है।

टिप्पणी:

उप निबंधक : सदर द्वितीय
कानपुर नगर